

मुश्किल को नामुमकिन क्यों माना जाए ? : अट्ठाईसवाँ
न्यूज़लेटर (2025)



प्यारे दोस्तो,

ट्राईकॉन्टिनेंटल : सामाजिक शोध संस्थान की ओर से अभिवादन ।

1957 में माओ त्सेतुंग ने Socialist Upsurge in China's Countryside [चीन के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी उत्थान] के प्रकाशन का काम संभाल रहे थे। यह एक तीन-खंड का दस्तावेज़ था जिसमें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने किसानों और ग्रामीण इलाकों की जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए लेख संकलित किए थे। इसके अगले साल इन तीन खंडों के संशोधित और क्षेत्रीय संस्करण भी छपे। इनमें से एक संस्करण में सहकारी आंदोलन के विषय में आन्यांग रीजनल कम्युनिस्ट पार्टी कमेटी की रिपोर्ट भी शामिल थी इसकी भूमिका माओ ने लिखी थी। इस रिपोर्ट में सवाल उठाया गया कि मुश्किल को नामुमकिन क्यों माना जाए?

यह मुश्किल काम था समाजवाद लाना, जिसे कई लोग असंभव मान बैठे थे। माओ लिखते हैं कि आन्यांग की खेती से जुड़ी जनता को पूँजीवाद और समाजवाद के बीच चुनना था – हालाँकि किसी भी समाजवादी संरचना में पूँजीवादी व्यवस्था के हल्के-फुल्के लक्षण रह ही जाएंगे क्योंकि वह सामाजिक उत्पादन के मौजूदा स्वरूपों के भीतर से ही उभरेगी। माओ ने लिखा 'ग़रीब जनता अपने जीवन का पुनर्निर्माण करना चाहती है पुरानी व्यवस्था मर रही है। एक नयी व्यवस्था जन्म ले रही है। नामुमकिन काम अब मुमकिन होता नज़र आ रहा है'। लेकिन इसके बावजूद माओ सतर्क थे। एक दूसरे लेख 'They Insist on Taking the Road to Co-Operation' [उनका आग्रह है सहयोग के मार्ग पर चला जाए] (20 सितंबर 1955) के प्राक्कथन में उन्होंने लिखा :

समाजवाद एक नयी चीज़ है। समाजवाद को लाने से पहले पुराने तरीकों के खिलाफ़ एक मज़बूत संघर्ष छेड़ना पड़ेगा। एक दौर में समाज का जो वर्ग अपनी ज़िद पर अड़ा रहता है और पुराने तरीकों को छोड़ना नहीं चाहता। वही वर्ग दूसरे दौर में अपना रुख बदल लेता है और नयी व्यवस्था का समर्थन करता है।



- **सूचना प्रबंधन के सीमित तंत्र:** समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं विशाल और जटिल थीं लेकिन उनके पास एक ताकतवर अर्थव्यवस्था के लिए उचित योजना तैयार करने के लिए सारा डाटा इकट्ठा करने और उसे प्रॉसेस करने के उपयुक्त तंत्र नहीं थे – आज बेहतरीन कम्प्यूटिंग तकनीकी विकास के बावजूद यह चुनौती बरकरार है।
- **निर्णय-प्रक्रिया में बुनियादी अनिश्चितता :** योजना बनाने वालों को अनिश्चित परिस्थितियों में बजट और निवेश के लिए आबंटन करने होते थे, खासतौर से इसलिए ताकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हो रहे तेज़ बदलावों और विकास की वजह से बड़े-बड़े निवेश बेकार न हो जाएँ।
- **दीर्घकालिक योजना और तात्कालिक माँग के बीच का टकराव :** केंद्रीय योजनाएँ अक्सर उपभोक्ताओं की बदलती पसंद के बीच टकराव की स्थिति रहती है जिससे उनकी तात्कालिक पसंद के हिसाब से दीर्घकालिक योजनाओं को ढाल पाना मुश्किल हो जाता है।
- **परस्पर विरोधी राजनीतिक उद्देश्य :** आर्थिक लक्ष्य हमेशा राजनीतिक रूप से एकीकृत नहीं होते थे। और विभिन्न योजनाओं में निहित एक-दूसरे से संघर्ष करते दृष्टिकोण अक्सर चालाक नौकरशाही को बढ़ावा देते हैं।

समाजवादी ताकतें जब राज्यसत्ता हासिल करती हैं तो उनके पास उपरोक्त और अन्य समस्याओं से उबरने का कोई एक फ़ार्मूला नहीं होता। इन्हें प्रयोगों से ही सुलझाना पड़ता है, जैसे कि एक चीनी कहावत है摸着石头过河 (पथरों को टटोलते हुए ही नदी पार की जा सकती है), लेकिन उसके लिए भी नदी में उतरना और आगे बढ़ने का प्रयास करना अनिवार्य है। इसलिए ट्राईकॉन्टिनेंटल : सामाजिक शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित [REDACTED] का जून 2025 का अंक ‘Chinese Experiments in Socialist Modernisation’ [समाजवादी आधुनिकीकरण के चीनी प्रयोग] पर केंद्रित है। इसका पहला लेख चीनी लेखक ली थूओ ने लिखा है जिसका शीर्षक है ‘On the Experimental Nature of Socialism and the Complexity of China’s Reform and Opening Up’ [समाजवाद के प्रयोगात्मक स्वरूप और चीन में सुधारों तथा उदारीकरण की पेचीदगियों के विषय में]। ली थूओ का यह बेहतरीन लेख पेरिस कम्यून से लेकर चीन में सुधारों और उदारीकरण तक को समेटता है। इस लेख के प्रमुख विचारों में से एक यह है कि समाजवादी क्रांतियाँ, खासतौर से उपनिवेश रह चुके या अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में, एकाएक ‘संपूर्ण समाजवाद’ की स्थिति में छलांग नहीं लगा सकतीं। लेनिन के हवाले से लेख में कहा गया है कि इन क्रांतियों को ‘अलग-अलग तरह के समाजवादी राज्य गढ़ने की विभिन्न, त्रुटिपूर्ण और ठोस प्रयासों की एक शृंखला’ से होकर गुज़रना पड़ता है।



मैं यहाँ 'अलग-अलग तरह के समाजवादी राज्यों' पर ज़ोर देना चाहूँगा। इसका कोई खाका नहीं है लेकिन ऐसे उदाहरण हैं जिनका अध्ययन किया जाना चाहिए और ऐसे इतिहास भी जिन्हें सही से समझा जाना चाहिए। और यही ली थूओ अपने लेख में किया है जिसके अंत में वे चीन की तेज़-गति की रेल प्रणाली के निर्माण की अद्भुत घटना का ज़िक्र करते हैं।

इसमें अगला लेख मंग चिए और झांग ज़पिन का लिखा हुआ है और इसका शीर्षक है 'Industrial Policy with Chinese Characteristics: The Political Economy of China's Intermediary Institutions' [चीनी विशेषताओं वाली औद्योगिक नीति : चीन के मध्यवर्ती संस्थानों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था]। यह लेख चीन के समाजवादी आधुनिकीकरण की सावधानी से जाँच करती है, यह सिर्फ़ उस पर मुग्ध नहीं होता बल्कि नज़दीकी से उसका अध्ययन करता है। चीन की बाज़ार अर्थव्यवस्था पर जब भी मैं मंग चिए का कोई व्याख्यान सुनता हूँ या उनका कोई लेख पढ़ता हूँ तो मैं उनके इस आग्रह से बहुत प्रभावित होता हूँ कि आधुनिक चीन के लिए जिन फ़ैक्टरियों में सामान बनाया जा रहा है उन्हीं में सक्रिय रिसर्च द्वारा सिद्धांतों का निर्माण किया जाए। मंग चिए और झांग ज़पिन का लेख भी यही करता है। यह तेज़-गति की रेल के निर्माण की विभिन्न फ़ैक्टरियों में फ़ील्ड रिसर्च को अपना आधार बनाता है।

लेखकों ने पाया कि चीन की तेज़-गति रेल की उत्पादन प्रणाली तो सरकारी क्षेत्र में तैयार की गई लेकिन इसे एक 'रचनात्मक बाज़ार' ढाँचे के तहत संकल्पित किया गया था, जहाँ 'सरकारी-आंतरिक प्रतिस्पर्धा' नवाचार का इंजन बनी। दूसरे शब्दों में, चीन सरकार ने एक ऐसा बाज़ार रचा जिसमें न केवल लाभ-केंद्रित निजी क्षेत्र शामिल था, बल्कि एक उत्पाद-उन्मुख सार्वजनिक क्षेत्र भी था, जहाँ संस्थान राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। इस पूरी प्रणाली के लिए वित्त राज्य-स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थानों से आया, जिसने पूँजी संचय को सामाजिक उपयोग की दिशा में मोड़ा, न कि केवल ऊँचे मुनाफ़े की ओर। मंग चिए और झांग ज़पिन के शब्दों में, "राज्य-स्वामित्व वाली पूँजी का प्राथमिक लक्ष्य समाजवादी उत्पादन के उद्देश्यों को लागू करना और राष्ट्रीय विकास योजनाओं व रणनीतियों द्वारा निर्धारित कार्यों को पूरा करना है।" यह निबंध मंग चिए और उनके सहयोगियों के एक व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसमें वे चीन द्वारा विकसित उत्पादन संबंधों और नवाचार की प्रणाली को समझने की कोशिश कर रहे हैं – यह जाँच का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि देश 'नई गुणवत्ता वाले उत्पादक बलों' (new quality productive forces) के युग में प्रवेश कर रहा है, जो समकालीन चीनी विकास नीति में एक प्रमुख अवधारणा है।

के इस नवीनतम अंक का एक प्रमुख विचार यह पेश करना है कि समाजवाद के निर्माण के दौरान भी वर्ग संघर्ष जारी रहता है। यानी उत्पादक शक्तियों के विकास और अधिक समतामूलक सामाजिक संबंधों की स्थापना के रास्ते में तमाम प्रयोग करके यह देखना पड़ता है कि क्या काम करता है और क्या नहीं। इस प्रक्रिया में चीन के भीतर एक निरंतर विचारधारात्मक संघर्ष चलता रहा है क्योंकि पूँजीपति फिर से मज़बूत होने के तरीके ढूँढते रहते हैं। लेकिन चीन की समाजवादी व्यवस्था के तहत वहाँ का पूँजीपति वर्ग मीडिया, वित्तीय व्यवस्थाओं, राजनीतिक दलों या अन्य संस्थानों में स्वामित्व के ज़रिए खुद को एक राजनीतिक ताक़त रखने वाले वर्ग के तौर पर संगठित नहीं कर सकता। वे अपने मुनाफ़े को स्वतंत्र रूप से विदेश नहीं ले जा सकते या जहाँ चाहें वहाँ निवेश नहीं कर सकते। पूँजी नियंत्रण सहित कई रणनीतिक रुकावटें हैं जो पूँजी के प्रवाह को विनियमित करती हैं और चीनी पूँजीपतियों को कुलीनतंत्र में बदलने या अपने देश में निवेश करने से इनकार करने से रोकती हैं (एक ऐसी समस्या जिसका सामना वैश्विक उत्तर और दक्षिण दोनों की कई सरकारों को करना पड़ता है, जहाँ कुलीनतंत्र अपनी पूँजी को जहाँ चाहें ले जा सकता है और यहाँ तक कि बुनियादी ढाँचे या उद्योग में निवेश करने से इनकार करके 'हड़ताल' पर भी चला जाता है)। चीन की पूँजी देश के भीतर ही रहती है और एक राज्य-स्वामित्व वाली बैंकिंग प्रणाली की पहुँच में रहती है, जो उस पूँजी को राष्ट्रीय विकास योजना के दायरे में होने वाले काम के लिए लगाती है। पूँजीपति देश में काम कर सकते हैं, लेकिन वे व्यवस्था पर हावी नहीं हो सकते हैं और न ही अपने लाभ-केंद्रित व्यवहार को सर्वोपरि बना सकते हैं। इस तरह वर्ग संघर्ष जनता के पक्ष में झुका हुआ है। यही वह बात है जो चीन की समाजवादी व्यवस्था को अन्य देशों की पूँजीवादी व्यवस्थाओं से अलग करती है।

१८४६ (1846) में मार्क्स और एंगेल्स ने 'युगों की कीचड़' ('muck of ages') के बारे में लिखा था जिसके एक नई दुनिया के जन्म के लिए हटाने की आवश्यकता थी। इस 'हटाने' की प्रक्रिया में बहुत लंबा समय लगने वाला है।

अभी लक्ष्य दूर है लेकिन उसकी ओर बढ़ना भी जारी है।

स्नेह सहित,

विजय